



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 21—अगस्त 27, 2010 (श्रावण 30, 1932)
No. 34] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 21—AUGUST 27, 2010 (SRAVANA 30, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई, दिनांक 27 जुलाई 2010

संदर्भ : बैंपविवि सं. आरईटी बीसी.28/12.02.001/2010-11--बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (1949 का 10) की धारा 24 की उप धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 08 सितम्बर 2009 की अधिसूचना बैंपविवि सं. आरईटी बीसी.40/12.02.001/2009-10 का आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा यह विनिर्दिष्ट करता है कि उक्त अधिसूचना के खंड (ग) के बाद निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाएगा :--

“बशर्ते उपर्युक्त प्रतिभूतियां (मार्जिन सहित) यदि भारतीय रिज़र्व बैंक--चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत प्राप्त हुई हैं तो उन्हें इस प्रयोजन के लिए पात्र आस्ति नहीं माना जाएगा।”

आनंद सिन्हा
कार्यपालक निदेशक

दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया

नई दिल्ली-110002, दिनांक 26 जुलाई 2010

नं. 13--सी.ए. (परीक्षा)/सी.पी.टी./दिसम्बर/2010-- चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 के रेगुलेशन 22 के अनुसार, दि काँसिल ऑफ दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया को अधिसूचना जारी करने में प्रसन्नता है कि सामान्य प्रवीणता परीक्षा की परीक्षा रविवार 19 दिसम्बर 2010 को दो सत्रों में निम्नलिखित केन्द्रों पर होगी, बशर्ते कि प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा के लिये पर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी निवेदन करते हैं।

(1) सामान्य प्रवीणता परीक्षा (पेपर-पेंसिल मोड)

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन, 1988 के रेगुलेशन 25 डी (3) व पाठ्य विवरण जोकि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जनरल के अगस्त 2006 अंक में पेज संख्या 291-293 व चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट विद्यार्थी पत्रिका के अगस्त 2006 अंक में पेज संख्या 12-13 में छपा है के अनुसार

सत्र-I (प्रातःकालीन सत्र)	प्रातः 10:30 बजे से सायं 12:30 बजे तक (भारतीय समयानुसार) खंड क--लेखांकन के मूल तत्व खंड ख--वाणिज्यिक विधियाँ
सत्र-II (दोपहर का सत्र)	सायं 2:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक (भारतीय समयानुसार) खंड ग--सामान्य अर्थशास्त्र खंड घ--परिमाणात्मक अभिक्षमता

परीक्षा केन्द्र :-

1. आगरा
2. अहमदाबाद
3. अहमदनगर
4. अजमेर
5. अकोला
6. अलापुजा
7. अलीगढ़
8. इलाहाबाद
9. अलवर
10. अम्बाला
11. अमरावती
12. अमृतसर
13. आनन्द
14. आसनसोल

15. औरंगाबाद
16. बंगलोर
17. बरेली
18. भटिन्डा
19. ब्यावर
20. बेलगांव
21. बेल्लारी
22. बेरहमपुर
23. भरूच
24. भावनगर
25. भीलवाड़ा
26. भोपाल
27. भुवनेश्वर
28. भुज
29. बीकानेर
30. विलासपुर
31. चंडीगढ़
32. चेन्नई
33. कोयम्बटूर
34. कटक
35. देहरादून
36. दिल्ली/नई दिल्ली
37. धनबाद
38. डुंडलोड
39. दुर्ग
40. ईरनाकुलम
41. ईरोड
42. फरीदाबाद
43. गांधीधाम
44. गाजियाबाद
45. गोवा
46. गोरखपुर
47. गुन्डूर

- | | |
|---------------|---------------------|
| 48. गुड़गांव | 80. मुम्बई |
| 49. गोहाटी | 81. मुजफ्फरनगर |
| 50. ग्वालियर | 82. मैसूर |
| 51. हिसार | 83. नागपुर |
| 52. हुबली | 84. नासिक |
| 53. हैदराबाद | 85. नोएडा |
| 54. इंदौर | 86. नांदेड |
| 55. जबलपुर | 87. नैल्लोर |
| 56. जयपुर | 88. पालघाट |
| 57. जालन्धर | 89. पाली भारवार |
| 58. जलगांव | 90. पानीपत |
| 59. जम्मू | 91. पटियाला |
| 60. जामनगर | 92. पनवेल |
| 61. जमशेदपुर | 93. पटना |
| 62. जोधपुर | 94. पिम्परी-चिंचवाड |
| 63. कानपुर | 95. पांडिचेरी |
| 64. करनाल | 96. पूना |
| 65. कोल्हापुर | 97. रायपुर |
| 66. कोलकाता | 98. राजामुंद्री |
| 67. कोल्लम | 99. राजकोट |
| 68. कोटा | 100. रांची |
| 69. कोट्टायम | 101. रतलाम |
| 70. कोझीखोड़ | 102. रेवाड़ी |
| 71. कुंभाकोनम | 103. रोहतक राउरकेला |
| 72. लातूर | 104. राउरकेला |
| 73. लखनऊ | 105. सहारनपुर |
| 74. लुधियाना | 106. सेलम |
| 75. मदुरई | 107. सांगली |
| 76. मंगलोर | 108. शिमला |
| 77. मथुरा | 109. सिलीगुड़ी |
| 78. मेरठ | 110. सोलापुर |
| 79. मुरादाबाद | 111. श्रीगंगानगर |
| | 112. सोनीपत |

113. सम्बलपुर
114. सूरत
115. सतारा
116. थाने
117. तिरुवनन्तपुरम्
118. थोसूर
119. तिरुचिरापल्ली
120. त्रिपुर
121. तिनसुकिया
122. टूटीकोरन
123. उदयपुर
124. उडुपी
125. उज्जैन
126. वडोदरा
127. वाराणसी
128. वेल्लोर
129. विजयवाड़ा
130. विशाखापट्टनम
131. यमुनानगर
132. वापी
133. तिरुपति
134. सीकर
135. भागलपुर

विदेशों में स्थित परीक्षा केन्द्र :- 1. आबुधाबी 2. दुबई 3. बहरीन
4. दोहा 5. काठमांडु (नेपाल)

परिधत् अपने विशेषाधिकार को अन्तर्गत किसी भी परीक्षा केन्द्र को किसी भी समय बिना किसी कारण दिये रद्द कर सकती है।

सामान्य प्रवीणता परीक्षा की परीक्षा के लिये आवेदन पत्र, जोकि सूचना विवरणिका में संलग्न है 6 अक्टूबर, 2010 से उपलब्ध होंगे, जोकि दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया के अपर सचिव (परीक्षा) के इन्द्रप्रस्थ मार्ग, आईसीआई भवन, नई दिल्ली-110002 स्थित कार्यालय से 600/- रुपये (रु. 500/- परीक्षा शुल्क व रु. 100/- आवेदन पत्र की

सूचना विवरणिका हेतु) प्रति आवेदन पत्र भुगतान करने पर मिल सकता है। आबुधाबी, दुबई, बहरीन और दोहा परीक्षा केन्द्र से परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क यू.एस. \$160/- (यू.एस. \$150/- परीक्षा शुल्क व यू.एस. \$10/- आवेदन पत्र व सूचना विवरणिका हेतु) या इसके समकक्ष भारतीय मुद्रा। काठमांडु (नेपाल) से परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी को परीक्षा शुल्क भारतीय मुद्रा रुपये 950/- (रुपये 850/- शुल्क व रुपये 100/- आवेदन पत्र व सूचना विवरणिका हेतु) सूचना विवरणिका जिसमें सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सी.पी.टी.) का आवेदन पत्र भी है, में परीक्षा शुल्क भी सम्मिलित है, अतः आवेदन पत्र जमा करने के समय कोई अन्य शुल्क की आवश्यकता नहीं है। सूचना विवरणिका जिसमें आवेदन पत्र भी संलग्न है इंस्टीट्यूट के रोजनल और ब्रांचों के कार्यालयों में भी उपलब्ध हैं और नगद भुगतान करने पर 6 अक्टूबर, 2010 से प्राप्त किये जा सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र 27 अक्टूबर, 2010 तक स्वीकार किये जायेंगे व 27 अक्टूबर, 2010 के बाद आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

सामान्य प्रवीणता परीक्षा का पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र स्वयं आकर भी इंस्टीट्यूट के नई दिल्ली कार्यालय व विकेंद्रित कार्यालयों मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, अहमदाबाद, बंगलोर, हैदराबाद, जयपुर एवं पूना में 27 अक्टूबर, 2010 तक जमा कराया जा सकता है। इन नगरों में रहने वाले परीक्षार्थियों को इस सुविधा का फायदा उठाने की सलाह दी जाती है। यह भी सूचित किया जाता है कि आवेदन पत्र 27 अक्टूबर, 2010 के बाद विलम्ब शुल्क के साथ स्वीकार करने की भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। अतः सामान्य प्रवीणता परीक्षा का पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र अपर सचिव (परीक्षा) के नई दिल्ली कार्यालय में इस प्रकार भेजा जाये कि वह 27 अक्टूबर, 2010 तक प्राप्त हो जाये।

इसके अलावा छात्र, परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन <http://icaiaexam.icaai.org> पर 6 अक्टूबर, 2010 (प्रातः 10.00 बजे) से 27 अक्टूबर, 2010 (सायं 5.30 बजे) तक भरें और परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड, VISA या Master कार्ड का प्रयोग करके अदा करें।

सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सी.पी.टी.) केवल उन्हीं परीक्षार्थियों के लिए है जो पहले से इस परीक्षा के लिए दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया में 1 अक्टूबर 2010 या इससे पहले रजिस्टर्ड हैं व योग्यता संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं।

प्रश्न-पत्र पत्रिका की भाषा :-

सामान्य प्रवीणता परीक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी। उम्मीदवारों को उत्तर हिन्दी माध्यम की प्रश्न पत्र पत्रिका द्वारा भी देने की सुविधा दी जाती है। विस्तृत जानकारी विवरणिका में उपलब्ध है।

जी. सोमशेखर
अपर सचिव (परीक्षा)

RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai, the 27th July 2010

Ref. DBOD. No. Ret. BC.28/12.02.001/2010-11—

In exercise of the powers conferred by Sub-section (2A) of Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) and in partial modification of the Notification DBOD. No.Ret. BC. 40/12.02.001/2009-10 dated September 08, 2009, the Reserve Bank hereby specifies that the following proviso shall be inserted after clause (c) of the said Notification, namely, —

"Provided that the securities (including margin) referred to above, if acquired under the Reserve Bank—Liquidity Adjustment Facility (LAF), shall not be treated as an eligible asset for this purpose."

ANAND SINHA
Executive Director

THE INSTITUTE OF CHARTERED
ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110002, the 26th July 2010

No. 13-CA (EXAM)/CPT/December/2010—In pursuance of Regulation 22 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify that the Common Proficiency Test (Paper-Pencil Mode) will be held on Sunday, 19th December, 2010 in two sessions as below, at the following centres provided that sufficient number of candidates offer themselves to appear from each centre.

[As per provisions of Regulation 25D (3) of the Chartered Accountants Regulations, 1988 and the syllabus as published in the pages 291—293 of the Journal 'The Chartered Accountant' August 2006 issue and pages 12-13 of Chartered Accountants Students' Newsletter August 2006 issue.]

First Session (i.e. Morning Session)	10.30 AM to 12.30 PM (IST) Section-A fundamentals of Accounting Section-B Mercantile Laws
Second Session (i.e. Afternoon Session)	2.00 PM to 4.00 PM (IST) Section-C General Economics Section-D Quantitative Aptitude

EXAMINATION CENTRES (IN INDIA) :

1. Agra
2. Ahmedabad
3. Ahmednagar
4. Ajmer
5. Akola
6. Alappuzha
7. Aligarh
8. Allahabad
9. Alwar
10. Ambala
11. Amravati
12. Amritsar
13. Anand
14. Asansol
15. Aurangabad
16. Bangalore
17. Bareilly
18. Bhatinda
19. Beawar
20. Belgaum
21. Bellary
22. Berhampore
23. Bhagalpur
24. Bharuch
25. Bhavnagar
26. Bhilwara
27. Bhopal
28. Bhubaneswar
29. Bhuj
30. Bikaner
31. Bilaspur
32. Chandigarh
33. Chennai
34. Coimbatore
35. Cuttack
36. Dehradun
37. Delhi/New Delhi

38. Dhanbad	76. Madurai
39. Dundlod	77. Mangalore
40. Durg	78. Mathura
41. Ernakulam	79. Meerut
42. Erode	80. Moradabad
43. Faridabad	81. Mumbai
44. Gandhidham	82. Muzaffarnagar
45. Ghaziabad	83. Mysore
46. Goa	84. Nagpur
47. Gorakhpur	85. Nanded
48. Guntur	86. Nashik
49. Gurgaon	87. Nellore
50. Guwahati	88. Noida
51. Gwalior	89. Palghat
52. Hisar	90. Pali Marwar
53. Hubli	91. Panipat
54. Hyderabad	92. Panvel
55. Indore	93. Patna
56. Jabalpur	94. Patiala
57. Jaipur	95. Pimpri-Chinchwad
58. Jalandhar	96. Pondicherry
59. Jalgaon	97. Pune
60. Jammu	98. Raipur
61. Jamnagar	99. Rajamahendravaram
62. Jamshedpur	100. Rajkot
63. Jodhpur	101. Ranchi
64. Kanpur	102. Ratlam
65. Karnal	103. Rewari
66. Kollam	104. Rohtak
67. Kolhapur	105. Rourkela
68. Kolkata	106. Saharanpur
69. Kota	107. Salem
70. Kottayam	108. Sambalpur
71. Kozhikode	109. Sangli
72. Kumbakonam	110. Satara
73. Latur	111. Shimla
74. Lucknow	112. Sikar
75. Ludhiana	113. Siliguri

114. Solapur
115. Sonapat
116. Sri Ganganagar
117. Surat
118. Thane
119. Thiruvananthapuram
120. Thrissur
121. Tinsukia
122. Tiruchirapalli
123. Tirupati
124. Tirupur
125. Tuticorin
126. Udaipur
127. Udupi
128. Ujjain
129. Vadodara
130. Vapi
131. Varanasi
132. Vellore
133. Vijayawada
134. Visakhapatnam
135. Yamuna Nagar

Overseas Centres :—(1) Abu Dhabi (2) Dubai
(3) Bahrain (4) Doha (5) Kathmandu

The Council reserves the right to withdraw any centre at any stage without assigning any reason.

Applications for admission to Common Proficiency Test is required to be made in the relevant prescribed form as contained in the Information Brochure, which may be obtained from the Additional Secretary (Examinations). The Institute of Chartered Accountants of India, ICAI Bhawan, Indraprastha Marg, New Delhi-110002 on payment of Rs. 600/- (Rs. 500/- towards examination fee and Rs. 100/- towards cost of application form and Information Brochure) per application form. The fee for candidates opting for Abu Dhabi, Dubai, Doha and Bahrain centres will be US \$160 (US \$150 towards examination fee and US \$ 10 towards cost of application form and Information Brochure) or its equivalent Indian Currency. The fee for the candidates

opting for Kathmandu centre are required to remit INR. 950/- (INR 850/- towards examination fee and INR 100/- towards the cost of application form and information Brochure) or its equivalent Foreign Currency. Since the cost of Information Brochure containing Common Proficiency Test application form includes the examination fee, no separate fee is required to be remitted at the time of submitting the filled in application form. The Information Brochure containing Common Proficiency Test application form will also be available in the Regional and Branch Offices of the Institute and can be obtained there from on cash payment on or from 6th October, 2010.

Common Proficiency Test application forms duly filled in may be sent so as to reach the Additional Secretary (Examinations) at New Delhi not later than 27th October, 2010. Applications received after 27th October, 2010 shall not be entertained under any circumstances. Applications duly filled in will be received by hand delivery at the offices of Institute at New Delhi and at the Decentralised Offices of the Institute at Mumbai, Chennai, Kolkata, Kanpur, Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad, Jaipur and Pune upto 27th October, 2010. Candidates residing in these cities are advised to take advantage of this facility. It may be noted that there is no provision for acceptance of application forms after 27th October, 2010 with late fee.

Alternatively the candidate may fill up the examination application form online at <http://icaiaexam.icaai.org> from 6th October, 2010 (10.00 hrs) to 27th October, 2010 (17.30 hrs) and remit the fee online by using Credit Card, either VISA or Master Card.

Common Proficiency Test (CPT) is open only to those students who are already registered with the Institute of Chartered Accountants of India for the said course on or before 1st October, 2010 and fulfill the requisite eligibility conditions.

QUESTION PAPER BOOKLET LANGUAGE :

Common Proficiency Test will be an objective type multiple choice questions based examination. Candidates will be allowed to opt for Hindi Medium Question Paper Booklet for answering the questions. Detailed information will be found given in the Information Brochure.

G. SOMASEKHAR
Additional Secy. (Exams.)